

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

rAma ninu vinA-SankarAbharaNaM

In the kRti ‘rAma ninnu vinA’ – rAga SankarAbharaNaM, SrI tyAgarAja says that there is none else to protect him.

- P rAma ninu vinA nanu
rakshimpan(o)rula kAna
- C1 talli taNDri(y)anna tammulu
daivamu nIv(a)ni
ullamunanu(y)anniTa ninu
callaga bAguga jUceda (rAma)
- C2 pAvana nI bhakti sadA
¹pAlincunu mOksham(o)sagu
mA-vara nI sannidhini
pramANamu jEsi palkeda (rAma)
- C3 satva guNambunanu(y)-
upAsanam(o)narinciri peddalu
tatvamu telisenu ika bhava
taraN(O)pAyamu nIv(a)ni (rAma)
- C4 lOkulu nija dAsula kani
lOpaDu dur-asUyalatO
SrI kara ninu ²dUshincina
ceDi pOIeru kAni (rAma)
- C5 kOrina kOrikal(o)sagE
SrI ramaNA ninn(a)niSamu
cEriti SaraN(a)nukoNTini
SrI tyAgarAja nuta (rAma)

Gist

O Lord SrI rAma! O Holy One! O Consort of lakshmi! O Lord who causes prosperity! O Beloved of lakshmi who bestows desires cherished! O Lord praised by this tyAgarAja!

For protecting me, I do not find anyone excepting You.

To my comfort, in my mind, I have clearly beheld You in everything – as my mother, father, brothers etc and God.

Devotion to You will sustain (devotees) and bestow emancipation; I say this by swearing in Your Holy presence.

Those great personages performed Your worship endowed with the quality of purity (desirelessness); the truth was revealed that You are the means for fording the Ocean of Worldly Existence.

Ordinary people, seeing Your true devotees, due to evil-some envy, even if they abuse You, they will not be ruined, indeed.

I constantly approached You because I considered that You are my refuge.

Word-by-word Meaning

P O Lord SrI rAma! For protecting (rakshimpanu) me (nanu), I do not find (kAna) anyone (orula) (literally others) (rakshimpanorula) excepting (vinA) You (ninu).

C1 To my comfort (callaga), in my mind (ullamunanu), I have clearly (bAguga) beheld (jUceda) You (ninu) in everything (anniTa) (ullamunanuyanniTa) – that (ani) You (nIvu) (nIvani) are my mother (talli), father (taNDri), elder brother (anna) (taNDriyanna), younger-brother etc (tammulu) and God (daivamu);

O Lord SrI rAma! For protecting me, I do not find anyone excepting You.

C2 O Holy One (pAvana)! Devotion (bhakti) to You (nI) will nourish (pAlincunu) (devotees) and bestow (osagu) emancipation (mOkshamu) (mOkshamosagu);

O Consort (vara) of lakshmi (mA)! I say (palkeda) this by swearing (pramANamu jEsi) in Your (nI) Holy presence (sannidhini);

O Lord SrI rAma! For protecting me, I do not find anyone excepting You.

C3 Those great personages (peddalu) performed (onarinciri) Your worship (upAsanamu) endowed with the quality (guNambunanu) (guNambunanuyupAsanamonarinciri) of purity (desirelessness) (satva); and the truth (tatvamu) was revealed (telisenu) that (ani) further (ika) You (nIvu) (nIvani) are the means (upAyamu) for fording (taraNa) (taraNOpAyamu) the Ocean (bhava) of Worldly Existence;

O Lord SrI rAma! For protecting me, I do not find anyone excepting You.

C4 Ordinary people (lOkulu), seeing (kani) Your true (nija) devotees (dAsula), due to (lOpaDu) evil-some envy (dur-asUyalatO), even if they abuse (dUshincina) You (ninu), O Lord who causes (kara) prosperity (SrI)! they will not be ruined (ceDi pOIeru), indeed (kAni);

O Lord SrI rAma! For protecting me, I do not find anyone excepting You.

C5 O Beloved (ramaNa) of lakshmi (SrI) who bestows (osagE) desires (kOrikalU) (kOrikalosagE) cherished (kOrina)!

I constantly (aniSamu) approached (cEriti) (literally join) You (ninnu) (ninnaniSamu) because I considered (anukoNTini) that You are my refuge (SaraNu) (SaraNanukoNTini);

O Lord praised (nuta) by this tyAgarAja! O Lord SrI rAma! For protecting me, I do not find anyone excepting You.

Notes –

Variations –

² – dUshincina ceDi pOlEru – dUshincina ceDi pOyEru. From the context, it seems that SrI tyAgarAja asserts that ‘those who abuse the Lord out of envy towards true devotees will not be ruined’. However, in some books, an opposite meaning has been taken that ‘they will be ruined’.

The word ‘dUshincina’ – ‘even if they abuse’, is correctly given in all the books. Therefore, the meaning ‘they will not be ruined’ is more appropriate. However, if the word ‘dUshincina’ is changed to ‘dUshinci’, then ‘ceDi pOyEru’ may be correct.

References –

² – dUshincina ceDi pOlEru – will not be ruined even if they abuse (You) - In this regard, the slaying of SiSupAla by SrI kRshNa is relevant. Please refer to dialogue between yudhishThira and nArada on the subject - (SrImad-bhAgavataM, Book 7, Chapter 1) – <http://vedabase.net/sb/7/1/en2>

Comments -

¹ – pAlincunu mOkshamosagunu – sustain and bestow emancipation – bhukti-mukti.

Devanagari

प. राम निनु विना ननु

रक्षिम्प(नो)रुल कान

च1. तल्लि तण्ड्र(य)न्न तम्मलु

दैवमु नी(व)नि

उल्लमुननु(य)न्नित निनु

चल्लग बागुग जूचेद (राम)

च2. पावन नी भक्ति सदा

पालिञ्चुनु मोक्ष(मो)सगु

मा-वर नी सन्निधिनि

प्रमाणमु जेसि पल्केद (राम)

च3. सत्व गुणम्बुननु-

(यु)पासन(मो)नरिञ्चिरि पेदलु

तत्वमु तेलिसेनु इक भव

तर(णो)पायमु नी(व)नि (राम)

च4. लोकुलु निज दासुल कनि
लोपडु दु(र)सूयलतो
श्री कर निनु दूषिञ्चिन
चेडि पोलेरु कानि (राम)

च5. कोरिन कोरिक(लो)सगे
श्री रमण नि(न्न)निशामु
चेरिति शर(ण)नुकोण्टिनि
श्री त्यागराज नुत (राम)

English with Special Characters

pa. rāma ninu vinā nanu

rakṣimpa(no)rula kāna

ca1. talli taṇḍri(ya)nna tammulu

daivamu nī(va)ni

ullamunanu(ya)nniṭa ninu

callaga bāguga jūceda (rāma)

ca2. pāvana nī bhakti sadā

pāliñcunu mōkṣa(mo)sagu

mā-vara nī sannidhini

pramāṇamu jēsi palkeda (rāma)

ca3. satva guṇambunanu-

(yu)pāsana(mo)nariñciri peddalu

tatvamu telisenu ika bhava

tara(ṇō)pāyamu nī(va)ni (rāma)

ca4. lōkulu nija dāsula kani

lōpaḍu du(ra)sūyalatō

śrī kara ninu dūṣiñcina

ceḍi pōlēru kāni (rāma)

ca5. kōrina kōrika(lo)sagē
śrī ramaṇa ni(nna)niśamu
cēriti śara(ṇa)nukoṇṭini
śrī tyāgarāja nuta (rāma)

Telugu

- ప. రామ నిను వినా నను
రక్షిమ్మ(నొ)రుల కాన
- చ1. తల్లి తణ్ణి(య)న్న తమ్ములు
దైవము నీ(వ)ని
ఉల్లమునను(య)న్నిట నిను
చల్లగ బాగుగ జూచెద (రామ)
- చ2. పావన నీ భక్తి సదా
పాలిళ్ళును మోక్ష(మొ)సగు
మా-వర నీ సన్నిధిని
ప్రమాణము జేసి పల్కెద (రామ)
- చ3. సత్య గుణమ్మునను-
(యు)పాసన(మొ)నరిళ్ళిరి పెద్దలు
తత్వము తెలిసెను ఇక భవ
తర(ణో)పాయము నీ(వ)ని (రామ)
- చ4. లోకులు నిజ దాసుల కని
లోపడు దు(ర)సూయలతో
శ్రీ కర నిను దూషిళ్ళిన
చెడి పోలేరు కాని (రామ)
- చ5. కోరిన కోరిక(లొ)సగే
శ్రీ రమణ ని(న్న)నిశము
చేరితి శర(ణ)నుకొణ్ణిని
శ్రీ త్యాగరాజ నుత (రామ)

Tamil

- ప. రామ నిను విినా నను
రక్షిమ్ప(నొ)రుల కాన
- చ1. తల్లి తణ్ణి(య)న్న తమ్ములు
దైవము నీ(వ)ని
ఉల్లమునను(య)న్నిట నిను
చల్లగ బాగుగ జూచెద (రామ)
- చ2. పావన నీ భక్తి సదా
పాలిళ్ళును మోక్ష(మొ)సగు
మా-వర నీ సన్నిధిని
ప్రమాణము జేసి పల్కెద (రామ)
- చ3. సత్య గుణమ్మునను-
(యు)పాసన(మొ)నరిళ్ళిరి పెద్దలు
తత్వము తెలిసెను ఇక భవ
తర(ణో)పాయము నీ(వ)ని (రామ)
- చ4. లోకులు నిజ దాసుల కని
లోపడు దు(ర)సూయలతో
శ్రీ కర నిను దూషిళ్ళిన
చెడి పోలేరు కాని (రామ)
- చ5. కోరిన కోరిక(లొ)సగే
శ్రీ రమణ ని(న్న)నిశము
చేరితి శర(ణ)నుకొణ్ణిని
శ్రీ త్యాగరాజ నుత (రామ)

- உல்லமுனனு(ய)ன்னிட நிணு
சல்லக³ பா³கு³க³ ஜ³செத³ (ராம)
- ச2. பாவன நீ ப⁴க்தி ஸதா³
பாலிஞ்சுனு மோக்ஷ(மொ)ஸகு³
மா-வர நீ ஸன்னிதி⁴னி
ப்ரமாணமு ஜேஸி பல்செத³ (ராம)
- ச3. ஸத்வ கு³ணம்பு³னனு-
(ய)பாஸன(மொ)னரிஞ்சிரி பெத்³த³லு
தத்வமு தெலிஸெனு இக ப⁴வ
தர(ணோ)பாயமு நீ(வ)னி (ராம)
- ச4. லோகுலு நிஜ தா³ஸுல கனி
லோபடு³ து³(ர)ஸ³யலதோ
பூநீ-கர நிணு து³ஷிஞ்சின
செடி³ போ-லேரு கானி (ராம)
- ச5. கோரின கோரிக(லொ)ஸகே³
பூநீ ரமண நின்(ன)னிஸமு
சேரிதி ஸர(ண)னுகொண்டினி
பூநீ த்யாக³ராஜ நுத (ராம)

இராமா! உன்னையன்றி என்னைக்
காப்பதற்கு மற்றவரைக் காணேன்

1. தாய், தந்தை, அண்ணன், தம்பியர்,
தெய்வம் நீயென
உள்ளத்தினில் யாவற்றிலும் உன்னைக்
குளுமையாக, நன்கு கண்டேன்;
இராமா! உன்னையன்றி என்னைக்
காப்பதற்கு மற்றவரைக் காணேன்
2. புனிதனே! உனது பற்று எவ்வமயமும்
பாதுகாக்கும்; வீடருளும்;
மா மணாளா! (இதை) உனது புனித முன்னிலையில்
ஆணையிட்டுச் சொன்னேன்;
இராமா! உன்னையன்றி என்னைக்
காப்பதற்கு மற்றவரைக் காணேன்
3. சத்துவ குணத்துடன் (உன்னை)
வழிபாடு செய்தனர், சான்றோர்;
தத்துவம் தெரிந்தது - இனி பிறவிக்கடலைத்
தாண்டிவிக்கும் சாதனம் நீயென;
இராமா! உன்னையன்றி என்னைக்
காப்பதற்கு மற்றவரைக் காணேன்
4. உலகோர், உண்மையான தொண்டர்களைக் கண்டு,
உட்படும் தீய பொறாமையினால்,
கீருள்வோனே! உன்னைத் தூற்றினாலும்,
கேடுறாரன்றோ

ಇರಾಮಾ! ಒನ್ನಣೆಯಣ್ಣಿ ಂಣ್ಣಣೆಕ್
ಕಾಪ್ಪತಱ್ಱು ಮಱ್ಱವರಣ್ಣೆ ಕಾಣ್ಣಣೆ

5. ಕೂಗಿಯ ಕೂಗಿಕ್ಕಕಕಗಣಯಣಿಕ್ಕುಮ್
ಇಲಕ್ಕುಮಿ ಮಣ್ಣಾಣಾ! ಒನ್ನಣೆ ಂವ್ವಮಯಮುಮ್
ಸೂಱ್ಱೆಣ್ಣೆ; ಪುಕಲಣ್ಣೆ ಕೂಣ್ಱೆಣ್ಣೆ;
ತಿಯಾಕರಾಸಣ್ಣಾಲ್ ಪೂಱ್ಱುಪ್ ಪೆಱ್ಱೆಣ್ಣಾಣ್ಣೆ!
ಇರಾಮಾ! ಒನ್ನಣೆಯಣ್ಣಿ ಂಣ್ಣಣೆಕ್
ಕಾಪ್ಪತಱ್ಱು ಮಱ್ಱವರಣ್ಣೆ ಕಾಣ್ಣಣೆ

ವಿಠು - ಮೂಕ್ಕುಮ್
ಸತ್ತುವುಮ್ - ತುಾಯ್ಱೆ - ಮುಕ್ಕುಣ್ಣಣ್ಣುಣ್ಣಿಲೂಱ್ಱು
ತತ್ತುವುಮ್ - ಒಱ್ಱುಪೂಱ್ಱು

Kannada

ಪ. ರಾಮ ನಿನು ವಿನಾ ನನು

ರಕ್ಕಿಮ್ಪು(ನೂ)ರುಲ ಕಾನ

ಚಗ. ತಲಿ ತಣ್ಣಿ(ಯ)ಣ್ಣೆ ತಮ್ಪುಲು

ದೈವಮು ನೀ(ವ)ನಿ

ಉಲ್ಲಮುನನು(ಯ)ಣ್ಣಿಟ ನಿನು

ಚಲ್ಲಗ ಬಾಗುಗ ಜೂಚೆದ (ರಾಮ)

ಚಱ. ಪಾವನ ನೀ ಭಕ್ತಿ ಸದಾ

ಪಾಲಿಣ್ಣುನು ಮೂಕ್ಕು(ಮೂ)ಸಗು

ಮಾ-ವರ ನೀ ಸಣ್ಣಿಠಿನಿ

ಪುಮಾಣಮು ಜೀಸಿ ಪಲೈದ (ರಾಮ)

ಚಱ. ಸತ್ವ ಗುಣಮ್ಪುನನು-

(ಯು)ಪಾಸನ(ಮೂ)ನರಿಣ್ಣಿರಿ ಪೆಠ್ಠಲು

ತತ್ವಮು ತೆಲಿಸೆನು ಇಕ ಭವ

ತರ(ಣೂ)ಪಾಯಮು ನೀ(ವ)ನಿ (ರಾಮ)

ಚಱ. ಲೂಕುಲು ನಿಜ ದಾಸುಲ ಕನಿ

ಲೂಪಡು ದು(ರ)ಸೂಯಲತೂ

ಶ್ರೀ ಕರ ನಿನು ದೂಷಿಣ್ಣಿನ

ಚೆಡಿ ಪೋಲೇರು ಕಾನಿ (ರಾಮ)

ಚೆಚ. ಕೋರಿನ ಕೋರಿಕೆ(ಲೊ)ಸಗೇ

ಶ್ರೀ ರಮಣ ನಿ(ನ್ನ)ನಿಶಮು

ಚೇರಿತಿ ಶರ(ಣ)ನುಕೊಣ್ಣಿನಿ

ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ (ರಾಮ)

Malayalam

പ. രാമ നിനു വിനാ നനു

രക്ഷിമ്പ(നൊ)രുല കാന

ച1. തല്ലി തണ്ഡ്രി(യ)ന്ന തമ്മുലു

ദൈവമു നീ(വ)നി

ഉല്ലമുനനു(യ)ന്നിട നിനു

ചല്ലഗ ബാഗുഗ ജുചെദ (രാമ)

ച2. പാവന നീ ഭക്തി സദാ

പാലിഞ്ചുനു മോക്ഷ(മൊ)സഗു

മാ-വര നീ സന്നിധിനി

പ്രമാണമു ജേസി പല്കെദ (രാമ)

ച3. സത്വ ഗുണമ്ബുനനു-

(യു)പാസന(മൊ)നരിഞ്ചിരി പെദുലു

തത്വമു തെലിസെനു ഇക ഭവ

തര(ണോ)പായമു നീ(വ)നി (രാമ)

ച4. ലോകുലു നിജ ദാസുല കനി

ലോപഡു ദു(ര)സൂയലതോ

ശ്രീ കര നിനു ദുഷിഞ്ചിന

ചെഡി പോലേരു കാനി (രാമ)

ച5. കോരിന കോരിക(ലൊ)സഗേ

ശ്രീ രമണ നി(ന്ന)നിശമു

ചേരിതി ശര(ണ)നുകൊണ്ടിനി

ശ്രീ ത്യാഗരാജ നുത (രാമ)

Assamese

প. বাম নিনু বিনা ননু

ৰক্ষি□(নো)ৰুল কান (rakṣimpa(no)rula)

চ১. তল্লি তল্লি(য়)ন তস্মুলু

দৈবমু নী(ব)নি

উল্লমুননু(য়)নিত নিনু

চল্লগ বাগুগ জুচেদ (বাম)

চ২. পাবন নী ভক্তি সদা
পালিঞ্চুণু মোক্ষ(মো)সগু
মা-বৰ নী সন্নিধিনি
প্রমাণমু জেসি পঙ্কেদ (ৰাম)

চ৩. সত্ৰ গুণস্বননু-
(যু)পাসন(মো)নৰিঞ্চিওৰি পেদলু
তত্ৰমু তেলিসেনু ইক ভৱ
তৰ(ণো)পায়মু নী(ৰে)নি (ৰাম)

চ৪. লোকুলু নিজ দাসুল কনি
লোপড়ু দু(ৰ)সূয়লতো
শ্ৰী কৰ নিনু দৃষ্টিঞ্চিওন
চেডি পোলেৰু কানি (ৰাম)

চ৫. কোৰিন কোৰিক(লো)সগে
শ্ৰী বমণ নি(নে)নিশমু
চেৰিতি শৰ(ণে)নুকোণ্টিনি
শ্ৰী অগৰাজ নুত (ৰাম)

Bengali

প. ৰাম নিনু বিনা ননু
ৰক্ষি□(নো)ৰুল কান (rakṣimpa(no)rula)

চ১. তল্লি তঞ্জি(য়ে)ন্ন তস্মুলু
দৈবমু নী(বে)নি
উল্লমুননু(য়ে)ন্নিট নিনু
চল্লগ বাগুগ জুচেদ (ৰাম)

চ২. পাবন নী ভক্তি সদা
পালিঞ্চুণু মোক্ষ(মো)সগু

मा-वर नी सन्निधिनि

प्रमाणमु जेसि पक्केद (राम)

च७. सत्त गुणस्वननु-

(यु)पासन(मो)नरिञ्चिरि पेद्लु

तत्तमु तेलिसेनु ईक भव

तर(णो)पायमु नी(वे)नि (राम)

च८. लोकूलु निज दासूल कनि

लोपडु दु(रे)स्यलतो

श्री कर निनु दूषिञ्चिन

चेडि पोलेरु कानि (राम)

च९. कोरिन कोरिक(लो)सगे

श्री रमण नि(न)निशमु

चेरिति शर(ण)नूकोष्टिनि

श्री आगराज नूत (राम)

Gujarati

५. राम निनु विना ननु

रक्षिम्प(ना)रुल डाने

५१. तल्लि तल्लि(य)न तम्मलु

द्वैवमु नी(वे)नि

उलेमुननु(य)नित निनु

यलेग आगुग नूर्ये (राम)

५२. पावन नी भक्ति सदा

पालिञ्चुनु मोक्ष(माँ)सगु

मा-वर नी सन्निधिनि

प्रमाणमु जेसि पक्केद (राम)

५३. सत्त गुणस्वननु-

(यु)पासन(माँ)नरिञ्चिरि पँद्लु

तत्तमु तँलिसँनु षड भव

ତର(ଘୋ)ପାୟମୁ ନୀ(ଘ)ନି (ରାମ)
୧୪. ଲୋକ୍ତୁଳୁ ନିଞ୍ଚ ଘାସୁଲ କନି
ଲୋପଡୁ ଘୁ(ର)ସୁଧଲତା
ଶ୍ରୀ କର ନିନ୍ତୁ ଘୁଷିଞ୍ଚିନ
ଏଠି ପୋଲେରୁ କାନି (ରାମ)
୧୫. କୋରିନ କୋରିକ(ଲୋ)ସଗେ
ଶ୍ରୀ ରମଘା ନି(ଞ୍ଚ)ନିଶାମୁ
ଏରିତି ଶର(ଘା)ନୁକାଞ୍ଚିଟନି
ଶ୍ରୀ ଥ୍ୟାଗରାଞ୍ଚ ନୁତ (ରାମ)

Oriya

୧୦. ରାମ ନିନ୍ତୁ ଖିନା ନନ୍ତୁ
ରକ୍ଷିଞ୍ଚ(ନୋ)ରୁଲ କାନ
୧୧. ତଲ୍ଲି ତଞ୍ଚି(ଘ)ନ୍ତୁ ତମ୍ବୁଲୁ
ଦୈଖମୁ ନୀ(ଞ୍ଚ)ନି
ଉଲ୍ଲମୁନନ୍ତୁ(ଘ)ନିଟ ନିନ୍ତୁ
ଚଲ୍ଲଗ ବାଗୁଗ କୁଚେଦ (ରାମ)
୧୨. ପାଞ୍ଚନ ନୀ ଭଞ୍ଚି ସଦା
ପାଲିଞ୍ଚୁନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ(ମୋ)ସଗୁ
ମା-ଞ୍ଚର ନୀ ସନିଧିନି
ପ୍ରମାଣମୁ ଜେସି ପଲ୍ଲେକଦ (ରାମ)
୧୩. ସତ୍ଞ ଗୁଣମୁନନ୍ତୁ-
(ଘ)ପାସନ(ମୋ)ନରିଞ୍ଚିରି ପେଇଲୁ
ତତ୍ଞମୁ ତେଲିସେନ୍ତୁ ଇକ ଭଞ୍ଚ
ତର(ଶୋ)ପାୟମୁ ନୀ(ଞ୍ଚ)ନି (ରାମ)
୧୪. ଲୋକ୍ତୁଳୁ ନିଜ ଦାସୁଲ କନି
ଲୋପଡୁ ଦୁ(ର)ସୁଧଲତା
ଶ୍ରୀ କର ନିନ୍ତୁ ଦୁଷିଞ୍ଚିନ

ਰੋਹਿ ਯੋਲੋਰੂ ਕਾਨਿ (ਰਾਮ)
ੳੳ ਕੋਰਿਨ ਕੋਰਿਕ(ਲੋ)ਬਰੋ
ਗੁੰ ਰਮਗ ਨਿ(ਨ੍ਰ)ਨਿਗਮੁ
ਰੋਰਿਠਿ ਗਰ(ਗ)ਨੂਕੋਛਿਨਿ
ਗੁੰ ਠਯਾਗਰਾਙ ਨੂਠ (ਰਾਮ)

Punjabi

- ੲ. ਰਾਮ ਨਿਨੁ ਵਿਨਾ ਨਨੁ
ਰਕਿਸਮਪ(ਨੋ)ਰੁਲ ਕਾਨ
ੳੳ. ਤੱਲਿ ਤਣਿਙ(ਯ)ਨਨ ਤੱਮੁਲੁ
ਦੈਵਮੁ ਨੀ(ਵ)ਨਿ
ਉੱਲਮੁਨਨੁ(ਯ)ਨਿਨਟ ਨਿਨੁ
ਚੱਲਗ ਬਾਗੁਗ ਜੂਚੇਦ (ਰਾਮ)
ੳੳ. ਪਾਵਨ ਨੀ ਭਕਿਤ ਸਦਾ
ਪਾਲਿਵਚੁਨੁ ਮੋਕਸ਼(ਮੋ)ਸਗੁ
ਮਾ-ਵਰ ਨੀ ਸੱਨਿਧਿਨਿ
ਪ੍ਰਮਾਣਮੁ ਜੇਸਿ ਪਲਕੇਦ (ਰਾਮ)
ੳੳ. ਸਤ੍ਰੂ ਗੁਣਮਬੁਨਨੁ-
(ਯੁ)ਪਾਸਨ(ਮੋ)ਨਰਿਵਿਚਰਿ ਪੱਦਲੁ
ਤਤ੍ਰਮੁ ਤੇਲਿਸੇਨੁ ਇਕ ਭਵ
ਤਰ(ਲੋ)ਪਾਯਮੁ ਨੀ(ਵ)ਨਿ (ਰਾਮ)
ੳੳ. ਲੋਕੁਲੁ ਨਿਜ ਦਾਸੁਲ ਕਨਿ
ਲੋਪਡੁ ਦੁ(ਰ)ਸੁਯਲਤੋ
ਸ੍ਰੀ ਕਰ ਨਿਨੁ ਦੁਸ਼ਿਵਿਚਨ
ਚੇਡਿ ਪੋਲੇਰੁ ਕਾਨਿ (ਰਾਮ)
ੳੳ. ਕੋਰਿਨ ਕੋਰਿਕ(ਲੋ)ਸਗੇ

ਸ੍ਰੀ ਰਮਣ ਨਿ(ਨਨ)ਨਿਸ਼ਮੁ

ਚੇਰਿਤਿ ਸ਼ਰ(ਣ)ਨੁਕੋਟਿਟਨਿ

ਸ੍ਰੀ ਤਯਾਗਰਾਜ ਨੁਤ (ਰਾਮ)